

तुरंत रिलीज के लिए

रायरसन यूनिवर्सिटी को स्कूल ऑफ मेडिसिन के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन से फंडिंग मिल रही है

सिटी के द्वारा 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग, रायरसन के स्कूल ऑफ मेडिसिन प्रस्ताव के फंड में मदद करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 जुलाई, 2021) – आज, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, शहर में भविष्य के स्कूल ऑफ मेडिसिन (School of Medicine) हेतु फंड में मदद के लिए, 1 मिलियन डॉलर प्लानिंग ग्रांट के पक्ष में वोट दी। फंडिंग का यह फैसला, रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) के प्रेजिडेंट, मुहम्मद लाचेमी (Mohamed Lachemi) के द्वारा प्रेजेंटेशन पेश करने के बाद लिया गया और ओनटैरियो सरकार (Ontario Government) को आधिकारिक प्रस्ताव की हिमायत करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के द्वारा आज की फंडिंग, रायरसन के स्कूल ऑफ मेडिसिन प्रस्ताव की हिमायत के लिए [इस वर्ष के शुरू में ओनटैरियो प्रांत के द्वारा ग्रांट की गई 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग \(\\$1 million in funding granted by the Province of Ontario earlier this year\)](#) से मेल खाती है। यह प्रस्ताव हेल्थ एजुकेशन के बारे में रायरसन के दृष्टिकोण का विवरण देगा, जिसमें रोगी की जरूरतों, सांस्कृतिक तौर पर संवेदनशील केयर की इंटर-प्रोफेशनल प्रैक्टिस और प्रावधान को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, प्राइमरी केयर और टेक्नोलॉजी के विस्तृत प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

यह फंडिंग, मेडिकल स्कूल हेतु भविष्य की जगह के तौर पर, ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) सहित, संभावी स्थानों की पहचान करने के लिए यूनिवर्सिटी को सिटी के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाएगी। यूनिवर्सिटी पहले घोषित 18 से 24 महीने की समय सीमा के अंदर ओनटैरियो प्रांत को अपना प्रस्ताव पेश करने पर काम कर रही है।

रायरसन यूनिवर्सिटी के प्रेजिडेंट और वाइस-चांसलर, मुहम्मद लाचेमी (Mohamed Lachemi) ने कहा, “हमें ओनटैरियो में हेल्थकेयर शिक्षा का विस्तार करने में ब्रैम्पटन के हमारे साझेदार होने पर गर्व है और हम इस हिमायत के लिए उनके शुक्रगुजार हैं।” उन्होंने आगे कहा, “नया मेडिकल स्कूल, ब्रैम्पटन में न केवल हेल्थकेयर सिस्टम का तेज़ी से विस्तार करेगा, बल्कि यह हमारे पूरे प्रांत में हेल्थकेयर और हेल्थकेयर-संबंधी क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए विविध प्रतिभाओं के लिए नींव भी तैयार करेगा।”

ब्रैम्पटन में स्कूल ऑफ मेडिसिन, ओनटैरियो में मेडिकल शिक्षा के बारे में एक नया दृष्टिकोण पेश करेगा – ऐसा दृष्टिकोण, जो हेल्थ केयर डिलीवरी और प्रैक्टिस के लिए बदलती जरूरतों पर ध्यान देने के लिए, कम्युनिटी, विविधता और भागीदारी के प्रति यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। यह नया दृष्टिकोण, ब्रैम्पटन और पूरे प्रांत में हेल्थकेयर सिस्टम में मौजूदा विशेष समस्या पर ध्यान

देगा, क्योंकि ग्लोबल महामारी के कारण दोनों में यह समस्या बढ़ गई है। ब्रैम्पटन में स्कूल ऑफ मेडिसिन का साझा दृष्टिकोण, साइबरसिक्योर कैटालिस्ट (Cybersecure Catalyst) और ब्रैम्पटन वेंचर्स ज़ोन (Brampton Ventures Zone) सहित, यूनिवर्सिटी और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के बीच में मौजूदा साझेदारियों पर आधारित है।

ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) ने कहा, "हम ब्रैम्पटन की युवा, विविध और तेज़ी से बढ़ने वाली कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य पोस्ट-सेकंडरी अवसरों के विस्तार का स्वागत करते हैं। रायरसन स्कूल ऑफ मेडिसिन में निवेश करने का यह अवसर, सिटी के लिए खास समय पर आया है, क्योंकि कोविड-19 (COVID-19) ने निष्पक्ष हेल्थ केयर सेवाओं के लिए हमारी जरूरत को बेहद बढ़ा दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "ब्रैम्पटन में रायरसन स्कूल ऑफ मेडिसिन यह सुनिश्चित करेगा कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की अगली पीढ़ी, बीमारी की रोकथाम और हेल्थ में वृद्धि; होम केयर; और, तीव्र केयर अस्पताल सेवाओं जैसे प्रोग्रामों में, हमारे शहर में लोकल तौर पर ट्रेनिंग ले सकती है। ऐतिहासिक तौर पर, ब्रैम्पटन को हेल्थ केयर सेवाओं में फंडिंग का अपना उचित हिस्सा नहीं मिला है, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में बहुत अधिक भीड़ और हॉलवे लोगों का इलाज करने जैसी समस्याएं हैं। रायरसन स्कूल ऑफ मेडिसिन में निवेश, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को ये स्थितियां बदलने का अवसर देता है।"

रायरसन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मेडिसिन, पांच मूल आधारों पर बनाया जाएगा:

- कम्युनिटी केंद्रित प्राइमरी केयर और हेल्थ के सोशल निर्धारकों पर ध्यान केंद्रित करना
- कम्युनिटीज को सांस्कृतिक तौर पर सम्मानपूर्वक केयर प्रदान करना
- केयर और रोगी नतीजों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए पद्धतियों में नवीनता और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना
- रोगियों के लिए बेहतर नतीजे प्राप्त करने हेतु हेल्थ केयर के इंटर-प्रोफेशनल नेटवर्क विकसित करने के लिए, भविष्य के फिजिशियन्स को कौशल प्रदान करना
- हमारी सोसायटी में बुजुर्गों की बढ़ रही आबादी पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी सहायता करना

रायरसन के स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्लानिंग कमेटी ने, रायरसन कम्युनिटी के साथ [कम्युनिटी मशविरों का पहला चरण पूरा कर लिया \(completed the first phase of community consultations\)](#) है और अब यह, ब्रैम्पटन, पील (Peel) तथा अन्य रीजन्स में कम्युनिटी स्टेकहोल्डर्स को शामिल करने के लिए ठोस योजना बनाने पर ध्यान देगी। ये मशविरें, कम्युनिटी संगठनों के लीडर्स, हेल्थ केयर कारोबारों, क्लिनिशियन्स और क्लीनिकल ग्रुप्स के साथ-साथ, कम्युनिटी ग्रुपों को जोड़ेंगे, ताकि स्कूल के लिए उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को समझा जा सके और उनके सुझावों को प्लानिंग में शामिल किया जा सके।

रायरसन के स्कूल ऑफ मेडिसिन प्रस्ताव के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस वेबसाइट पर जाएं: <https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/>

रायरसन यूनिवर्सिटी, नवीनताकारी, कैरियर-अनुकूलित शिक्षा, शहरी, सांस्कृतिक तौर पर विविधता और भागीदारी में कैनेडा की लीडर है, यूनिवर्सिटी 46,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए घर है, जिनमें दुनियाभर के 2,900 मास्टर के और पी.एच.डी. के विद्यार्थी, 3,800 फैकल्टी और स्टाफ, और 200,000 एलुमनी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, ryerson.ca पर जाएं।

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

जेसिका लीच (Jessica Leach)

पी.आर. एंड कम्युनिकेशन्स स्पेशलिस्ट

रायरसन यूनिवर्सिटी

jleach@ryerson.ca

416.704.2166

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca